

Tuesday September 7, 2021

Ref. No. CIFL/BSE/2021-22/34

To, The Manager-Listing BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Intimation in compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, and the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, please find enclosed herewith copies of newspaper publication, published in Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) on September 7, 2021, in respect of information regarding the 27th (Twenty Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capital India Finance Limited ("Company") scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM).

It is also informed in compliance with the provisions of Regulation 30 of the Listing Regulations that the Notice of AGM ("Notice") along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-21 ("Annual Report") has been sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company/ KFin Technologies Private Limited/ Depository Participant(s) on September 6, 2021, through electronic means. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members (holding equity shares either in physical or dematerialized form) to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during AGM) on the businesses specified in the Notice. The Company has decided September 21, 2021 as the cut-off date for determining the eligibility of its Members to vote either through remote e-voting or e-voting during the AGM.

The Notice along with the Annual Report are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com under the investors section.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you, For Capital India Finance Limited

Rachit Malhotra

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A39894

Place: New Delhi Encl: As above

Corporate Office A-1402, One BKC, 14th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai, Maharashtra - 400051

P: +91 22 4503 6000 E: info@capitalindia.com CIN No: L74899DL1994PLC128577 (Capital India Finance Limited) Registered Office 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

P: +91 11 4954 6000 W: www.capitalindia.com

भारत पहुंचे अफगान नागरिकों के लिए सरकार ने जारी किया आदेश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

अफगानिस्तान में अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले किसी भी अफगान नागरिक को गृह मंत्रालय की अनुमति के बगैर देश छोडने के लिए नहीं कहा जाएगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

नीरज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L27106DL1985PLC021811 पंजी. कार्यालय: 5140-41/34, एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली. रुई मंडी सदर बाजार. दिल्ली-110006 फोन: 011-23551821, 0120-6526390

ई-मेल आईडी: nirajispatindustries@gmail.com, वेबसाईटः www.nirajispat.in

तदुद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 36वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 30 सितम्ब 2021 को 11.30 बजे पर्वा. में 5140-41/34 एफ/एफ चौधरी मार्केट, गली पेटी वाली, रुई मंडी सदर

एजीएम की सचना में वर्णित साधारण एवं विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। ਜਂ. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 के साथ पठित सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि

8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर नं 20/2020 तिथि 5 मई, 2020, सर्क्युलर नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य सर्क्यलरों (सामृहिक रूप से ''संबंधित सर्क्युलर्स'' वर्णित) के के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 इलेक्ट्रॉनिक पद्धित में ऐसे सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके इ मेल पते कम्पनी/आरटीए के साथ 3 सितम्बर, 2021 तक पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की कोई भौतिक/हार्ड कॉपी कम्पनी

अद्यतन नहीं कराये हों, से अनुरोध है कि वे इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास compliances@skylinerta.com पर अथवा http:// www.skylinerta.com/submit-document-to-rta.php पर क्लिक करके पंजीकृत/ अद्यतन करा लें तथा जिन सदस्ये के पास डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपने ई-

कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nirajispat.in पर और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

वेबसाइट evoting@nsdl.co.in भी उपलब्ध है। कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय और विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 सितंबर, 2021 (9:00

रिमोट ई-वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद

सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम

लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-सा बैठक में पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान करने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और सचना के संचार के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है और कट ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह अपने फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख करते हुए compliances@skylinerta.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन - आईडी और पासवर्ड पाप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है। हालांकि अगर ऐसे शेयरधारक पह से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो मौजूदा यूजर-आईडी और

कंपनी ने ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए वी कुमार एंड एसोसिएट्स के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री विवेक कुमार को स्कृटिनाइजर के रूप में नियुक्त

यदि आपको ई-वोटिंग से संबंधित कोई शिकायत है, तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध e-voting manual/ Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री वीरेंद्र कुमार राणा, निदेशक, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अन्तरण एजेंट के रजिस्ट्रार, डी-153ए, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज -1, नई दिल्ली 110020 टेलीफोन 011-40450193 से 97 पर से संपर्क करें या compliances@skylinerta.com पर ई-मेल करें। सदस्य कंपनी को nirajispatindustries@gmail.com पर

नामः चैतन्य चौधर्र

DIN: 06813394 पद नामः निदेशक एवं सीईअं पता : केडी-46, कवि नगर, गाजियाबाद-201002, उ.प्र

गृह मंत्रालय का निर्णय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब एक पखवाडे बाद आया है। भारत में आने वाले कई अफगान नागरिकों को अपने देश के नए शासकों से भय है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमित के बगैर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) द्वारा किसी भी अफगान नागरिक को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले एफआरआरओ गृह मंत्रालय

अफगानिस्तान संसद की महिला सदस्य रंगीना कारगर को वैध दस्तावेजों के बावजूद दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेज दिए जाने के बाद यह आदेश आया है। सरकार ने अफगानिस्तान सहित सभी देशों के भारत में रह रहे नागरिकों का वीजा 'निःशुल्क आधार' पर 30 सितंबर तक बढा दिया है।

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले कई अफगान नागरिक भारत में छह महीने से ज्यादा समय और कई नागरिक मार्च 2020 में पहले पर्णबंदी की घोषणा के समय से ही रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना जुर्माना लगाए 30 सितंबर तक बढाने का निर्णय किया है। इस तरह के विदेशी नागरिकों को एफआरआरओ को वीजा विस्तार के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। देश छोड़ने से पहले उन्हें बाहर जाने की अनुमति के लिए आवेदन देना पड़ सकता है जिसे एफआरआरओ बिना जुर्माने के मंजुरी देगा।

भारतीय रिजर्ब बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) पो.ओं. आरबीएनएमएल, शालबनी—721132, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल दूरमाष : 03227-280176 / 280317; फॅक्स: 03227-280744 / 280222

खली निबंदा पुछताछ (ओटीई)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी) दो भाग बोली प्रणाली के तहत अनुभवी, संसाधनपूर्ण, प्रतिष्ठित और बोनाफाइड आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं / एजेंसियों / ठेकेदारों (जैसे लाग हो) द्वारा निम्नलिखित निविदाएं आमंत्रित की जाती है: -

 बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में हाई स्पीड पेपर कर्टिंग गिलोटिन मशीन की आपूर्ति, स्थापना कमीशनिंग, प्रशिक्षण और प्रदर्शन परीक्षण, निविदा सं. 020/साल/पीयुआर/2021-22 (अनुमानित

2. बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में पॉलीयुरेथेन (पीयू) सीमेंटयुक्त फर्श का कार्य हेत्, निविदा सं. 009 / साल / एमएमडी-सिविल / 2021-22 (अनुमानित लागत- ₹ 46.00 लाख)

 बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में आवासीय क्वार्टरों में वाटर प्रिफेंग कार्य, निविदा सं 010 / साल / एमएमडी-सिविल / 2021-22 [अनुमानित लागत- ₹ 92,69,307.00] बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में एफ्ल्एंट ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन और रखरखाव अनुबंध

के साथ-साथ रसायनों की आपूर्ति, निविदा सं. 011/साल/एमएमडी-अनुरक्षण/2021-22 [वार्षिक अनुमानित लागत— ₹26.00 लाख] बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में फिनिशिंग डिवीजन में विविध कार्यों के लिए अक्शल श्रम की आपूर्ति,

निविदा सं. 012 / साल / एमएमडी—अनुस्क्षण / 2021—22 [वार्षिक अनुमानित लागत — ₹26.00 लाख] उपरोक्त सभी निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 08.10.2021 को 11:30 बजे हैं। निविदा दस्तावेजों और अन्य विवरणों को डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट

www.brbnmpl.co.in पर जाएं। आगे विस्तार या संशोधनों के लिए यदि कोई हो, केवल हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत -रतनपुर पमारान वि०ख० राजेपुर (फर्रुखाबाद) पत्रांक-6/मनरेगा/टेण्डर/प्रकाशन निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारण्टी योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्वीकृति कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु कार्यस्थल पर सामग्री आपूर्ति हेत् निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 05/09/2021 तक ग्राम पंचायत कार्यालय निविदा विक्रय की जायेगी एवं दिनांक 11/09/2021 को शाम 4 बजे खोली जायेगी।

क्रमांक	कार्य का नाम	सामग्री	कुल अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य होने का अनुमानित समय
1	सुशील के दरवाजे से अंगद के दरवाजे तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य।	331077	388166	500	७ दिन
2	पप्पू के मकान से बब्लू के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य।	105373	227054	500	७ दिन
3	दिवारी के मकान से रामसिंह के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य।	198565	236516	500	७ दिन
4	रावेन्द्र के मकान से आलोक के मकान तक मिट्टी नाली व इन्टरलाकिंग कार्य।	339529	398387	500	७ दिन
नियम एवं शर्तेः निविदादाता का जीएसटी व आयकर विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।					

मुनीष यादव कीर्ति कुशवाहा सचिव

ग्राम पंचायत-रतनपुर पमारान

ग्राम पंचायत-रतनपुर पमारान

''कोरोना रोकें; अपना हाथ साफ रखें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें' दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय: कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-IV सीवेज शोधन संयंत्र, कोण्डली, दिल्ली-110096

फोन: 011-22613156, मो.: 9650290862, ईमेल: eesdw4.djb@nic.in प्रैस निविदा सूचना- एन.आई.टी. सं. 07(2021-22)/ईई (एसडीडब्ल्यू) IV

तिथि: 6.9.2021

अपलोडिंग की की तिथि लागत ∕धरोद्वर राशि तिथि⁄निविदा आईडी 1 10 वर्षों के एएमसी सहित दि.ज.बो. के विभिन्न 4.9.2021/2021 DJB 95,20,000.00 वर्तमान सरकारी मानकों के 07.10.2021 एसटीपी 'ज में क्लॉथ डिस्क की आपूर्ति अनुसार ईएमडी में छूट है। लेकिन बोलीदाता को 1500/-207917 1 3.30 अप. तक संस्थापन, परीक्षण तथा कमीशनिंग ईएमडी छूट की जगह परिशिष्ट-I को भरना होगा इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. (2020-21)/368

स्थान : नई दिल्ली

तिथि: 6.9.2021

(आर. के. कौशिक) कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू)-IV

बिकंघम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L22100DL198314401 पंजी. कार्यालयः सी-125, जी/एफ लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024 फोनः 8527260705, वेबसाईटः www.buckingham.in ई-मेल आईडी: buckingham1983@yahoo.com

नदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं समस्त प्रयोज्य प्रावधानों और सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 परिपत्र नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 परिपत्र नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एव कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से ''प्रासंगिक परिपत्र'') सन्दर्भित के अनुपालन में एजीएम बुलाने की सूचना मे निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए बिकंघम इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों की 38वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3.00 अप. मे इसके पंजीकृत कार्यालय सी–125, जी/एफ लाजपत नगर, नई दिल्ली–110024 पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए' सन्दर्भित) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 कम्पनी की वेबसाइट www.buckingham.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्चचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.mse.in/ पर

ई-मेल पते पंजीकृत∕अपडेट करने की रीति

क) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि https://www.alankit.com पर क्लिक करके अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए' सन्दर्भित) के पास rta@alankit.com पर ई-मेल भेजकर इसे अपडेट करा लें। व) डीमैट मोड शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे कृपया अपने ई-मेल पते उन डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ

पंजीकृत/अपडेट करा लें जिनके पास उनके डीमैट खाते प्रबंधित हैं। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.buckingham.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्चचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.mse.in/ और एनएसडीएल की वेबसाइट evoting@nsdl.co.in पर

आगे यह सूचना दी जाती है कि यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा एनएसडीएल द्वारा रिमोट . –वोटिंग के माध्यम से साधारण और विशेष व्यवसायों का लेन–देन तथा एजीएम मे वोटिंग की जा सकती है। सदस्य कृपया ध्यान दें :

(i) कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9 बजे से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे

ii) कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है. वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बुधवार, 22 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। कंपनी ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मेसर्स वी कमार एंड एसोसिएटस के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री विवेक कमार को स्क्रटिनाइजर के रूप में नियक्त किया है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for members तथा e-voting user manual for members का संदर्भ ले सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबरः 1800–222–990 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित किसी और शिकायत के लिए, सदस्य निम्नलिखित पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं: फोन नंबर +91 22 24994545, +91 22 24994559

> बिकंघम इंडस्टीज लिमिटेड के लिए सुलभ दीक्षित

बोर्ड के आदेशानसार

पूर्ण कालिक निदेशक

DIN: 07070194

शापेलाइन ब्राडकास्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 37, द्वितीय मंजिल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाडुगंज, दिल्ली-110055 ई-मेलः sharplinebroadcastlimited@gmail.com, वेबसाइटः www.sharplinebroadcast.in

सीआईएन: L22100DL1990PLCO39464 दूरभाष: 011-23524610

रतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक पंजीकृत कार्यालयः 37, द्वितीय मंजिल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055 मे व्रीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जायेगी जिसमें कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं ।7/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, सर्क्युलर नं.20/2020 तिथि 5 मई, 2020, सर्क्युलर नं 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित सेबी सर्क्युलर तिथि 12 मई, 2020 तथा लागृ होने वाले अन्य सर्क्युलर्स के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले प्रावधानों (सामूहिक रूप से सर्क्युलर्स विदित) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में वर्णित

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ एजीएम की सचना इलेक्टानिक पद्धति से केवल उन सदस्यो को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (यहां के बाद ''आरटीए'' वर्णित) के पास ांजीकृत हैं। जिन सदस्यों के ईमेल पंजीकृत नहीं हैं, वे ध्यान रखें कि सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 कम्पनी की वेबसाईट https://sharplinebroadcast.in, स्टॉक एक्सचैंज अर्थात् मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट https://www.msei.in पर

ईमेल पते के पंजीकरण/अपडैटिंग का तरीकाः

क) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल परं पंजीकृत/ अद्यतन नहीं कराये हों, से आग्रह है कि अपने फोलियो नम्बर के विवरणों तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए http://www.skylinerta.com/ subnit document to rta php पर क्लिक पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (इसके बाद 'आरटीए' वर्णित) के पास compliances@skylinerta.com अथवा info@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर

ख) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों/ जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं कराये हैं. से आग्रह है कि उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/ अद्यतन कराएं जिनके पास उनकी डिमैट खाता प्रबंधित है।

कपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट https://sharplinebroad cast.in तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमि. की वेबसाईट www.msei.in तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट evoting@nsdl.co.in

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा विनियमन 2015 के पास पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन मे कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा सचना में वर्णित साधारण व्यवसायों को एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा। सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें:

i) कट-ऑफ तिथि अर्थातु बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्टानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे अप. से मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 के 5.00 बजे अप. तक जारी रहेगी।

 कट-ऑफ तिथि को भौतिक या इलेक्टॉनिक पद्धित में शेयर धारित करने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्टानिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल होने के लिये योग्य होंगे किन्तु एजीएम में मतदान के लिये योग्य नहीं होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों, वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं।

वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री

विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव मै. वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किसी भी प्रकार की पृछताछ के लिये सदस्य 011-23524610, ई-मेल आईडी: sharpline-

proadcastlimited@gmail.com पर कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स ौ. स्काइलाइन फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के कार्यालय, डी–153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020, सम्पर्क विवरणः टेलीः +011-40450193 से 197 एवं 26812682-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेल आईडी: compliances@skyinerta.com पर ई-मेल अनुरोध भेजें।

बोर्ड के आदेश रं तिथि: 6.9.2021 शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिखे स्थानः दिल्ली हस्ता. नामः संजीव कुमार झा DIN: 02840583 **CAPITAL INDIA**

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, डीएलएफ केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नंबर 011-49546000 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-1402, एक बीकेसी, 14वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 | फोन नंबर 022-45036000

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 27 वीं वार्षिक आम बैठक और ई-वोटिंग पर जानकारी की सूचना

तदद्वारा सचित किया जाता है कि कैपिटल डॉडिया फाइनेंस लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 27वीं (सताइसवीं) वार्षिक साधारण बैठक (''एजीएम'') एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार के लेन-देन के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और उसके अंतर्गत चने नियमों और परिएत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिएत्र सं. 20/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं, 02/2021 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र नं, 02/2021, दिनांक 13 जनवरी 2021 (समग्र रूप से 'एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सुचीबद्ध देवताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (''स्चीवर्ध विनियम'') और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न सं SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('समग्र रूप से ''परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और समय-समग्र जारी हुए अनुसार एसीए और सेबी (समग्र रूप से 'परिपत्रों' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी ऐसे अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को सुबह 10.30 बजे आयोजित की

कंपनी के बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् दूसरी मंजिल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 माना जाएगा। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक उपस्थित की एजीएम में आवश्यकता नहीं है और वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीए में उपस्थित अधिनियम की थारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी और सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने बीसी/ओएबीएम और एजीएम के दौरान इंस्टा पॉल के माध्यम से ई-बोटिंग द्वारा एजीएम मे भाग लेने के लिए रिमोट ई-बोटिंग द्वारा बोटिंग के लिए सुविधा देने के लिए केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर इस्तांतरण एजेंट ("केफिनटेक" या "आरटीए"/") को नियुक्त किया है।

किलीय वर्ष 2020-21 के लिए उसमें अंकेक्षित विलीय विवरण के सहित विलीय वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट सहित सभी परिशिष्ट उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रानिक मोड में 06 सितंबर, 2021 को सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके मेल कंपनी/आरटीए या उनके संबंधित डिपोजिटरीज के साथ रॉजस्टर हैं। हालाँकि, आरटीए या कंपनी को उनके फोलियो नं./क्लाइंट आईडी व डीपी आईडी बताते हुए विशेष अनुरोध करते हुए दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए सदस्यों के लिए उपलब्ध है। ये सभी दस्तावेज करेंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com, केफिन की वेबसाइट www.kfintech.com, बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और पर भी उपलब्ध हैं।

दिनांक : 6 सितंबर, 2021

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों क अनुपालन में. लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और सेबी परिपत्र संख्या SEBUHD/CFD/CMD/CIR/P/2020/242. दिनांक 9 दिसंबर 2020. के अनुसार सदस्यों को निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम के नोटिस मेंइलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट डालने की सुविधा एजीएम की सूचना में प्रदान की जाती है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत 25 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 (IST) होगी और 27 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 डाले जाने पर, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएग

कंपनी के सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ डेट 21 सितंबर, 2021 तक डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर या

एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और कंपनी के शेयर पाने वाले और कट-ऑफ डेट अर्थात 21 सितंबर, 2021 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति से वीसी/ओएबीएम सविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान इंस्टा पोल द्वारा ई-बोटिंग द्वारा बोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना का संदर्भ लेने का अनुरोध है। कट-ऑफ डेट तक सदस्य न होने वाले सदस्य एजीएम की सुचना को जानकारी के रूप में देखें।

एजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले सदस्य बीसी/ओएबीएम द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा अपने बोट डालने के डकदार नहीं होंगे। बीसी/ओएबीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में मीजूद होने वाले सदस्य और रिमोट ई-बोटिंग द्वारा प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं और ऐसा करने से बाधित नहीं है एजीएम के दौरान ई-बोटिंग सिस्टम के द्वारा अपने वोट डालने के योग्य हों। सदस्य केवल एक ही माध्यम द्वारा अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट

एजीएम की सूचना में वर्णित सभी नोट्स को भवानपूर्वक पढ़ने का अनुरोध है और विशेष रूप से एजीएम ये जुड़ने और रिमोट

कंपनी के सदस्यों के रिगस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं 18 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शमिल) तक एजीएम के लिए और 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्किटी शेयर पर अंतिम लांधाश. यदि एजीएम में घोषित होता है, के लिए सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगी। लाभांश उन्हीं सदस्यों को देव होगा जिनके नाम 17 सितंबर, 2021 ("**'रिकॉर्ड डेट**") तक सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होंगे। इलैक्टानिक फॉर्म में आयोजित शेयरों के संबंध में, लाभांश उन व्यक्तियों को जिनके नाम डिपोजिटरीज के रिकॉर्ड में 17 सितंबर, 2021 तक लाभार्थी स्वामियों के अनुसार प्रदर्शित

लाभांश संबंधित जानकारी : सदस्य ध्यान दें कि बिला अधिनियम, 2020 (1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) द्वारा संशोधित अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 में परिवर्तनों और वित्त अधिनियम, 2021 (01 जुलाई, 2021 से प्रभावी) के अनुपालन में, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य हो जाएगी और कंपनी को निर्धारित दर्रो पर शेयरधारकों को लाभांश का भगतान कनने के लिए समय पर स्त्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होगी। इस संबंध में विस्तृत ई-मेल संचार उन सभी सदस्यों को अलग से भेजा जाएगा जिनके मेल पते कंपनी/आरटीए/डिपोजिटरीज के साथ पंजीकृत हैं, साथ ही टीडीएस कटीती के लिए विस्तृत अनुपालकता और प्रक्रिया और दावों छुट. यदि वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी द्वारा उसकी घोषणा पर कंपनी द्वारा चुकता किए जाने के लिए प्रस्तावित लाभांश लाभांश की सचना दी जाएगी।

रूप में स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं। वे https:emeetings.kfintech.com पर जा सकते हैं और केफिनटेक से प्राप्त ई-मेल में दिए गए युजर आईडी व पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन पर .''स्पीकर रजिस्टेशन' चर्ने जो 23 सितंबर 2021 को सुबह 9,00 बजे से खुलेगा और 24 सितंबर 2021, को शाम 5,00 बजे बंद होगा। सदस्यों को बैठक से पहले क्यु नंबर दिया जाएगा। कंपनी को केवल उन सदस्यों को वक्ता को प्रतिबंध करने का अधिकार है जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर स्वयं कां रजिस्टर किया है।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल को रजिस्टर/अपडेट नहीं किया है से einward.ris@kfintech.com पर आरटीए को लिखकर अपने ई-मेल अपडेट करने का अनुरोध है या फोलियों नं. . सदस्य के नाम व पते वर्णित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैनड प्रति (आगे व पीछे), पैन कार्ड की रूव सत्यापित प्रति, पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि) की स्व सत्यापित प्रति के साथ कंपनी को <u>Secretarial@capitalindia.com</u> भेज सकते हैं। गैर भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते रजिस्टर/अपडेट करने का अनरोध है।

मैसर्स अरूण गुप्ता व एसोसिएट्स, कंपनी सचिवीय श्री अरूण कुमार गुप्ता (सीओपी : 8003) को निष्यक्ष व पारदर्शी तरीके से ई-बोटिंग प्रक्रिया (एजीएम के दौरान वोट डालने सहित) जांच करने के जिलए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अथयक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तरंत बाद या लिखित में प्राधिकत व्यक्ति को देने

कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं पर भी जमा किए जाएंगे। इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ/या शिकायत के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन (एफएक्यूज) और https:evoting kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-बोटिंग युजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं

वा श्री नवीन मुथेल्या से <u>evoting@kfintech.com</u> पर संपर्क करें वा केफिनटेक टॉल फ्री नं. 1-800-309 4001 पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें। कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

> रचित मल्होत्रा कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

शिखर सम्मेलन नौ को, बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पांच देशों के समृह ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। डिजिटल तरीके से आयोजित होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पृतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी शामिल होंगे। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में दुनिया के पांच सबसे बड़े विकासशील देश हैं, जो वैश्विक आबादी के 41 फीसद जनसंख्या वाले

इस बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर व्यापक रूप से चर्चा होने की संभावना है। विदेश

मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2021 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौ सितंबर को डिजिटल प्रारूप में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह दुसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले 2016 में उन्होंने गोवा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। इस बार शिखर सम्मेलन का विषय है- निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर-ब्रिक्स सहयोग।

भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। इनमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी उपयोग तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना शामिल हैं। इन विषयों के अलावा, नेतागण कोविड -19 महामारी का प्रभाव और अन्य मौजदा मद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरने का अभ्यास करेगा वायुसेना का विमान

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 6 सितंबर।

> भारतीय वायुसेना का एक विमान इस सप्ताह राजस्थान के बाडमेर में एक राष्टीय राजमार्ग पर आपातकालीन स्थिति में उतरने (आपात लैंडिंग) का अभ्यास करेगा। इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे। रक्षा मंत्रालय के

अधिकारियों मृताबिक, दोनों मंत्री इस सप्ताह बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी का उद्घाटन करेंगे,

लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों की आपात लैंडिंग के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि यह भारत स्थिति में वायुसेना के विमानों द्वारा उन्हें हवाई पट्टी का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है.

जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए किया जाएगा।

अक्तूबर 2017 में, वायुसेना के लड़ाकू जेट और परिवहन विमानों ने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया था. ताकि यह दिखाया जा सके कि ऐसे राजमार्गों का उपयोग वायुसेना विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जा सकता है।

लखनऊ-

आगरा एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदश

सरकार के अधीन

राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिक रण

(एनएचएआई)

के अधिकारियों ने

बाड़मेर में राष्ट्रीय

राजमार्ग पर हवाई

विकसित

भार ताी य

आता है।

'इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे

'देश भर में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार ल्लिए के जा रहे हैं, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों के लिए उन्हें हवाई पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके

करने के लिए क्योंकि यह वायुसेना के वायुसेना अधिकारियों के साथ समन्वय कर काम किया। अधिकारियों के मृताबिक, बाड़मेर में उपरोक्त इस राजमार्ग के अलावा देश भर में कम से कम 12 राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किए जा रहे हैं, ताकि आपात

के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

RELIGARE

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L74899DL1984PLC146935 पंजीकृत कार्यातय: पहली मंजिल, पी-14, 45/90, पी-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली -110001 फोन: +91-11-4002 1400 | फैक्स नंबर: +91-11-4002 1401

वेवसाइट: www.religare.com | ईमेल: Investorsservices@religare.com 37वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सुचना दिनांक 28 अगस्त, 2021 में निर्धारित व्यवसायों के लेनदेन के लिए रेलिगे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (''कम्पनी'') की 37वीं वार्षिक आम बैठक (इसके पश्चात ''एजीएम'' कहा जायेगा) वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य दृश्य श्रव्य साधनों (''वीसी/ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 4.00 बजे अप. (भा.मा.स.) पर आयोजित

कंपनी ने एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों के पास भेज दी है जिनके ई-मेल पते भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI / HO / CFD / CMD1/CIR /P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के साथ पठित कॉपोर्रेट मामले मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020,17/2020,20/2020 और 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, अप्रैल 13,2020, मईं 5,2020 और जनवरी 13,2021 (बाद में सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) (इसके बाद सामृहिक रूप से परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसार कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ के साथ

के रजिस्ट्रार और अन्तरण एजेंट की वेबसाइट अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिनटेक'') की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है । ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सचना का प्रेषण सोमवार. 6 सितंबर.2021 को पूरा कर लिया गया है। सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्टॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है

वार्षिक रिपोर्ट की प्रति और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.religare.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक

एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com पर तथा कंपनी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और उन्हें प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन एक्सेस करें। रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग हेत निर्देश

i. समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 (''अधिनियम'') और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अनुसार सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। बुधवार, 22 सितंबर, 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य https://evoting.kfintech.com पर केफिनटेक की ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के

ii. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (अपराह्न 1.00 बजे भा.मा.स.) से शुरू होगी और मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 (5:00 अपराह्न भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट कर दिए जाने के बाद, सदस्य इसे बाद में संशोधित नहीं कर सकता है।

रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने

iii. डीमैटरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सहित वोटिंग की रीति सहित सचना और निर्देश एजीएम की सचना में प्रावधानित है और साथ-साथ केफिनटेक द्वारा सदस्यों के पास भेजे गए ईमेल में भी प्रदान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर अर्जित करने वाले सदस्य कंपनी व

investorservices@religare.com पर या केफिनटेक को einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी

iv. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, किन्तु वे एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। v. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.religare.com पर भी उपलब्ध है। कृपया केफिनटेक की वेबसाइट यानी https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए 'ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देखें। कोई भी सदस्य

जिसके पास ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत है, श्री एसवी राजू, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्क्टि, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद 500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल करें। vi. सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की कल वोटिंग पंजी में उनके शेयरों के पेड-अप वैल्य के अनपात में होंगे। कंपनी द्वारा पिछले दो वर्षों से 0.01% 2,50,00,000 गैर-संचयी गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय अधिमानी शेयरों (''अधिमानी शेयरों'') पर 10/- रुपये (दस रुपये) प्रत्येक के अंकित मूल्य के लाभांश का भुगतान न करने के कारण, कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के पूर्वोक्त अधिमानी शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को भी उनके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के अनुपात में एजीएम नोटिस में उल्लिखित

संकल्प पर वोट देने का अधिकार होगा। भौतिक और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने तथा/अथवा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में उपस्थित होने और वहाँ ई-वोटिंग हेतु लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx का उपयोग करके उसमें निर्देशित प्रक्रिया का अनुपालन करके अथवा ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्वप्रमाणित प्रति तथा इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर आईडी और भौतिक धारिता के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल निवेदन भेजकर आरटीए के साथ अपने ई-मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा

ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेशन के लिए, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप से धारित शेयरों के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट

लिमिटेड के पास अनुरोध भेज सकते हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि सूचीबद्धता विनियमों के नियमों और विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 से बुधवार, 29 सितंबर,2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

इसके अलावा, शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि एजीएम में शामिल होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वोट डालने के तरीके आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए एजीएम नोटिस में निर्धारित टिप्पणियों को ध्यान से पढ़ें। निदेशक मण्डल के आदेशानुसार कृते रेलीगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

कम्पनी सचिव

www.readwhere.com

तिथि : 06.09.2021

स्थान : दिल्ली

बाजार दिल्ली-110006 में आयोजित की जायेगी जिसमें

भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते पंजीकृत/

ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की

पूर्वाह्न) से बुधवार, 29 सितंबर, 2021 (शाम 5:00) तक रहेगी।

शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधि

पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

ईमेल के माध्यम से भी लिख सकते हैं। कृते एवं हिते निदेशक मंडल

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (पर्व में चिराय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड विदित)

CIN: L92100DL1994PLC059093

के पास भेजेगा।

पंजीकृत कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली नई दिली-110055 ईमेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाईट: www.sadhna.com, फोनः (011) 23552627

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवा 29 सितम्बर, 2021 को 4.00 अप. मे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीएस)/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी।

सर्कुर्यलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 सर्क्युलर नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 वे साथ पठित सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि 5 मई, 2020 ('एमसीए') तथा सर्क्युलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/ पी/2020/79, सेबी द्वारा जारी ('सर्क्यलर्स') वे अनुपालन में तथा भौतिक प्रतियों के प्रेषण में संलग्न कठिनाई को देखते हुए एजीएम की सूचन तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी के ऐसे सदस्यों को 6 सितम्बर 2021 को भेजी गई है जिनके ईमेल कम्पनी/आरटीए के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण ध्यान रखें कि कम्पनी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 तथा एजीएम सुचना की हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी।

प्रक्युलर्स के अनुपालन में चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जा रही है सदस्य की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविध भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि compliances@skylinerta.com प कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

(यहां से 'आरटीए' वर्णित) के पास उसे पंजीकत/अद्यतन करा लें। कृपया ध्यान रहे कि उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.sadhnabroadcast.com तथा स्टॉक एक्सचैंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com तथ मेटोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट के साथ हीं एनएसडीएल की वेबसाईट evoting@nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमवाली, 2014 के नियम, 20, यथा-संशोधित तथा विनियमन 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पर्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों से उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा नेष्पादित किया जायेगा। सदस्यगण निम्नलिखित का ध्यान रखें: i कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार 22 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल

सचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 26 सितम्बर, 2021 को (9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 (5.00 बजे अप.) तक जारी रहेगी। ii कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी वे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये योग्य नहीं होंगे।

स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक

सिक्यरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्टानिक वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम की

कुमार, वी कुमार एंड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार, 18 सितम्बर, 2021 से बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उदेश्य से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये आप https://www.evoting.nsdl.com के डाउलोड खंड में सदस्यों के लिये उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या अधोलिखित टोल फ्री नं.: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित आगे किसी भी समस्या के लिये सदस्य निम्न सम्पर्क पर एनएसडीएल से सम्पर्क करें। फोन नं. + 91 22 24994545, +91 2224994559 बोर्ड के आदेश

> नामः तेजिन्दर कौर DIN:0679957 पदनामः प्रबंध निदेशक पताः 24/27, फ्रान्ट साइड, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-11000

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिरं

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577 वेबसाइट: www.capitalindia.com | ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com

सदस्यों को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि :

(IST) पर समाप्त होगी। उक्त रिमोट ई-बोटिंग मॉइयुल इसके बाद बोटिंग के लिए बंद कर दिए जाएंगे। सदस्य द्वारा एक बार बोट

सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं रिमोट बोटिंग के साध-साध एजीएम में वोटिंग की सुविधा पाने के पात्र होंगे

ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के द्वारा वोट डालने का तरीके पर ध्यान दें।

बक्ता पंजीकरण : बैठक के दौरान बोलने के इच्छक व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए एजीएम के लिए वक्ता के

के बाद कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर रखे जाएंगे। परिणाम बीएसई लिमिटेड या स्टॉक एक्सचेंज की जहां

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 7 सितम्बर, 2021

रीना जयारा

FINANCIAL EXPRESS

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED CIN: L65993DL1987PC028669

Regd. Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. **Tel:** 011-41450121

ANNUAL GENERAL MEETING, E VOTING AND BOOK CLOSURE

to be held on **Thursday, September, 30, 2021 at 01:30 p.m (IST)** through provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 to transact the business, as set out in the notice of the members was completed on Monday, September 06, 2021.

The Annual Report has being sent only through electronic mode. The same shares held, scanned copy of share certificate (front and back)

In compliance with the above said circulars, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

The 34th AGM will be conducted through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) for this company has engaged its RTA-Skyline Financial Services Private Limited for making necessary arrangements and conducting the AGM through VC/OAVM using their platform.

Central Depository Services Limited (CDSL), to enable them to cast their votes for the resolution proposed to be transacted at the AGM Company is pleased to provide its shareholders with facility to attend the

BOOK CLOSURE: Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th September, 2021 to 30th September, 2021 (both days inclusive).

The remote e-voting shall commence from 27th September, 202^c

The cut-off date for determining eligibility to vote shall be

Members attending the meeting, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right at the AGM Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

v. Persons whose name is recorded in the Register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on Cutoff date i.e. 24th September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of voting at the AGM.

contact write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (02223058738)

For Moongipa Capital Finance Limited

Gulshan Ahuja

Place: New Delhi

Date:06 September, 2021

Dated: Sept. 06, 2021 Place: New Delhi **Company Secretary and Compliance Officer**

CAPITAL INDIA

B.C. POWER CONTROLS LIMITED

(CIN: L31300DL2008PLC179414) Registered Office: 7A/39, WEA Channa Market, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: info@bonlongroup.com, Website: www.bcpowercontrols.com

NOTICE OF THE 13TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING

INFORMATION & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 13" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Tuesday, 28" September, 2021 at 01:00p.m. (IST) to transact the business, as set out in the

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 dated 08" April, 2020, 13" April, 2020, 05" May, 2020 and 13" January, 2021 respectively and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12" May, 2020 and 15" January, 2021, respectively, the Notice of 13" AGM and Annual Report have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 04" September, 2021. The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.bcpowercontrols.com and website of the stock exchange i.e.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEB! (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2), the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of AGM through VC/OWVAM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The procedure/instructions in this respect-have been provided in notes to the Notice of AGM.

The members of the Company holding shares eitherin physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 21st September 2021, shall be eligible to cast vote by remote evoting or attend the meeting through VG/OAVM and cast vote atAGM. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date, The remote e-voting period shall commence on Saturday 25" September 2021 (09.00 A.M. IST) and end on Monday 27" September, 2021 (05.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote ona resolution is cast by the members through remote e-voting, he shall not be permitted to change it subsequently. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled for cast their votes

Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, 21 September 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@insdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID-and password for casting your vote.

Mr. Vineet Garq, Advocate has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may

register themselves by sending request mentioning their name, demat account/folio number, email id, mobile number through their registered e-mail to the Company at info@bonlongroup.comon or before 21" September, 2021 along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the shareholders, self-attested copy of PAN/other identity and address proof.

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with their Depository Participants

In case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdlcom or call on toll free no: 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4" Floor, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:-evoting@nsdi.co.in.

RELIGARE

set out in the AGM Notice dated August 28, 2021.

For B.C. Power Controls Limited

RELIGARE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1984PLC146935

Regd. Office: 1st Floor, P-14, 45/90, P- Block,

Connaught Place, New Delhi -110001

Phone: +91-11-4002 1400 | Fax No.: +91-11-4002 1401

Website: www.religare.com | email: investorservices@religare.com

NOTICE OF THE 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (hereinafter called as "AGM") of Religare

Enterprises Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 4:00 P.M. (IST)

through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") to transact the businesses as

The Company has sent the Notice of the AGM and Annual Report, including the Standalone and

Consolidated Audited Financial Statements for the financial year 2020-21, through electronic mode to the

shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent

or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020

and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred as "MCA Circulars") read with

Circular No. SEBI / HO / CFD / CMD1/CIR /P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular number

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of

India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). The copy of the Annual Report and

Notice of the AGM is also available on the Company's Website at www.religare.com, websites of the stock

exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and website of the Company's Registrar and Transfer Agent viz. KFin

Technologies Private Limited ("KFintech") at https://evoting.kfintech.com. The dispatch of Notice of the

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by KFintech

Members are requested to visit https://emeetings.kfintech.com and access the shareholders'/ members

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), the

AGM through emails has been completed on Monday, September 06, 2021.

login by using the remote e-voting credentials provided to them.

Instructions for Remote E-voting and E-Voting:

Rajbir Sharma (Company Secretary)

AKASHDEEP METAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L28998DL1983PLC017150 Reg. office:14, Dayanand Vihar, Backside Ground Floor, Vikas Marg Ext., Delhi-110092

Tel: +91-11-43011038; Website: www.akashdeepmetal.in; Email: info.akashdeep14@gmail.com

PUBLIC NOTICE TO MEMBERS Information regarding 37th Annual General meeting

Notice is hereby given that the 37th Annual General meeting ("AGM") of Akashdeep Metal Industries Limited ("Company") is scheduled to be held on Thursday, September 30, 2021 at 05:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/other Audio Visual means ("OAVM") facility, in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), to transact the businesses as set forth in the Notice convening the said AGM.

In line with the said MCA Circulars, the notice of the 37th AGM along with the Annual Report 2020-21 are being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Therefore, Members who have not registered their e-mail addresses are requested to register by following the steps as given below:-For Members holding shares in physical form, please send scan copy of a signed

- request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self attested copy of the PAN and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address info.akashdeep14@gmail.com.
- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.

The Notice of the 37th AGM is also be available on the Company's website www.akashdeepmetal.in and on the website of the Stock Exchange, viz. BSE Limited (www.bseindia.com).

The Company is providing remote e-voting facility before and during the AGM to its Members through National Securities Depository Limited (NSDL) to cast their votes. The detailed procedure for e-voting is set forth in the Notice of the AGM. Members whose e-mail id is not registered with the Company/ Depositories can obtain login credentials for e-voting by providing the details mentioned herein below to email id of Company or RTA viz. info.akashdeep14@gmail.com or ippl@indusinvest.com respectively:-

- a. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self- attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self- attested scanned copy of Aadhar Card).
- For Demat shareholders providing Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card).

The Company/RTA shall co-ordinate with NSDL and provide the login credentials to the above mentioned shareholders.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company.

> **Kesha Ankit Choksi** Company Secretary & Compliance Officer

KCL Limited

CIN: L74899DL1983PLC068008 Regd. Office: E-292, Sarita Vihar, New Delhi-110044,

NOTICE OF 38" ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that:

The 38" Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Thursday, 30° day of September, 2021 at 1:00 P.M. at the Registered Office of the company situated at E-292, Sarita Vihar, New Delhi-110044 to transact the business as set forth in the Notice of AGM which has been dispatched to the Members on 30° August, 2021, along with the Annual Report for the year ended 31" March, 2021. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.kcl.co.in. Notice of AGM and

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 23° September, 2021, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NDSL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members

Annual Report for 2021 has been sent to all other members at their registered address in the

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means: The remote e-voting shall commence on 27° September, 2021 at 9:00 A.M;

The remote e-voting shall end on 29th September, 2021 at 5.00 P.M;

The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23" E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M on 29th September, 2021;

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, 23" September, 2021 may obtain the Login ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@nsdlindia.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; Members may note that:

the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5.00 P.M on 29" September, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend

the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail

facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper. The Notice of AGM is available on the Company's website www.kcl.co.in and also on the Website of the Stock Exchange where the shares of the company are listed.

For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to: Beetal Financial & Computers Services Pvt. Ltd, Beetal House, 3th Floor, 99, Madangir, Behind LSC,

New Delhi-110062, Ph: 011-29961281, E-mail: beetalrta@gmail.com The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday 23" September 2021 to Thursday 30" September, 2021 for the purpose of AGM.

Place: Delhi

Date: 06/09/2021

For M/s KCL Limited

(Amit Aggarwal) Company Secretary

SURYA INDIA LIMITED

For Akashdeep Metal Industries Limited

Regd. Office: B-1/F-12, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044. Tel: +91 11 45204115; Fax: +91 11 28898016; Email: cs@haldiram.com,

CIN- L74899DL1985PLC019991; Website: www.suryaindialtd.com NOTICE OF 36™ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 36" Annual General Meeting ("AGM") of "Surya India Limited" will

be held on Thursday, the 30" day of September, 2021 at 03:00 P.M.at the Registered office of the Company situated at B-1/F-12, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 to transact the business set out in the Notice of the AGM dated 04th September, 2021. The notice of the 36" AGM along with Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been sent to the members at their registered address or at e-mail ids whose e-mail address is registered with the Company or concerned depository. Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities

and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 24"September, 2021 to Thursday, 30"September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. The dispatch of the Notice and Annual Report 2020-21 has been completed on Monday, 06" September, 2021. As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration)

Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to cast vote using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) to all Shareholders (holding shares in both physical and electronic form). The Company has engaged NSDL as authorised agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given as under:

The resolutions as stated in the notice calling 36° AGM can be transacted through remote e-

Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: Sunday, September 26, 2021 (9:00 a.m.) Date and time of end of remote e-voting through electronic means: Wednesday, September

The cut-off date for determining the eligibility of the shareholders to vote by electronic

means or at the 36"AGM is Thursday, September 23, 2021. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Wednesday,

September 29, 2021. The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the 36"AGM. The Company will make arrangement of ballot papers for the purpose of voting at the venue of the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their

Any person, who acquires shares of the Company and become shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@haldiram.com. The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the Notice of the 36thAGM which is available on Company's website www.suryaindialtd.com and on NSDL's website

A person whose name is recorded in the Register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through ballot papers at the AGM.

The Notice of AGM and Annual Report of the Company is available on the Company's website https://www.survaindialtd.com in the Investor Information Section and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com The Company has appointed Mr. Pradeep Kathuria, Proprietor, M/s P. Kathuria &

Associates, Company Secretaries(FCS- 4655, C.P. 3086), to act as scrutinizer for the electronic voting process (remote e-voting) as well as for the voting process conducted at the AGM in a fair and transparent manner. The result of voting of the 36"AGM shall be announced not later than two (2) working days

from the conclusion of the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company and on the website of NSDL for information of the members, besides being communicated to the Stock

For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of 36"AGM and in case of any gueries/ grievances connected with electronic voting, please refer the Help/Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the https://www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.inor contact NSDL Helpdesk at toll free No. 1800 1020 990 / 1800 224 430 or write to Ms. Jagriti Aggarwal, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at cs@haldiram.com or at the registered office address of the Company situated at B-1/F- Mohan Co- Operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi- 110044 For Surya India Limited

Date: 07.09.2021 Place: New Delhi

Reena Jayara

Company Secretary

(Jagriti Aggarwal) Company Secretary

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

indianexpi

an assumption. ive at a conclusion not ar

Inform your opinion detailed analysis.

For the Indian Intelligent. The Indian Express.

Phone: 011-47532795, Fax: 011-47532798 Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com NOTICE

Notice is hereby Given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED ("the Company") is scheduled Video conferencing/ other audio visual means without the physical presence of the Members at the meeting, in compliance with all applicable AGM. The dispatch of the Annual Report of the company for the Financial Year 2020-21 along with the AGM notice and E-voting procedure to the

is also being made available on the Company's website a www.mongipa.com and is also available on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Those members whose email IDs are not registered and those shareholders who are holding shares in physical form, are requested to register their email with Registrar & Transfer Agent i.e., compliances@skylinerta.com by writing an email either to the RTA at compliances@skylinerta.com or the Company at moongipac@gmail.com carrying the following details or through their respective depositories: Name as registered with the RTA/Depository, Address, email, copy of PAN, DPID/Client ID/Folio Number, Number of

Company is pleased to provide its shareholders e voting facility through (www.evotingindia.com).

AGM through video conferencing (VC)/other Audio-Visual means (OAVM) through login into the website of CDSL (www.evotingindia.com).

All Members are hereby informed that: (9:00 A.M.) and ends on 29th September, 2021 (5.00 P.M.).

24th September, 2021.

In case of any queries / grievances relating to e voting, members may

By Order of the Board of Directors

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577 Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-49546000 Corporate office: A-1402, One BKC, 14th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051, Ph. No. 022-45036000 Website: www.capitalindia.com, Email ID: secretarial@capitalindia.com

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM") AND INFORMATION ON E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 27" (Twenty-Seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capita India Finance Limited ("the **Company**") will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 10:30 A.M. through VC/OAVM to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 ("collectively referred to as MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 read with SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("collectively referred to as SEBI

Circulars") and such other applicable circulars issued by MCA and SEBI (collectively referred to as "Circulars").

The Venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company i.e. 2nd Floor, DLF Centre

Sansad Marg, New Delhi-110001. Pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of the Members is not

required at the AGM, and attendance of the Members through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act and the facility for appointment of Proxies by Members will not be available. The Company has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("KFintech" or "RTA") to provide facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM and e-voting through Insta Poll during the AGM. The manner and instructions to cast vote through remote e-voting as well as through e-voting system during the AGM have been provided in the Notice of The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 including therein the Audited Financial Statements for Financial Year 2020-21, Auditor's report, Board's report along with all the annexures have been sent to members on September 6, 2021 in Electronic Mode to all the members who have registered their E-mail IDs

either with the Company / RTA or with their respective Depositories. However, an option is available to the Members to continue to receive the physical copies of the documents/ Annual Reports by making a specific request quoting their Folio No./Client ID & DP ID to Company or RTA. These documents are also available on the Company's Website at www.capitalindia.com, on the website of KFintech at www.kfintech.com and may also be accessed on the website of BSE Limited at <u>www.bseindia.com</u>, where the equity shares of the Company are listed. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and in terms of

facility to cast their vote electronically, through the e-Voting services provided by KFintech, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The remote e-voting period shall commence on September 25, 2021 at 09:00 A.M. (IST) and end on September 27, 2021 at 05:00 P.M. (IST). The said remote e-voting module shall be disabled for voting

SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, the Members are provided with the

thereafter. Once the vote is cast by a Member, the same cannot be changed subsequently; Members of the Company whose name appears in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the cut-off date i.e. September 21, 2021, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM; Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 21, 2021, are requested to refer to the Notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the login id and password for casting vote

through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting through Insta

Poll during the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Those Members who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their vote on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system during AGM. A Member can opt only for single mode of voting i.e. through remote e-voting or e-voting at the AGM; The members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in particular, the

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 18, 2021 to September 28, 2021 (both days inclusive) for the purpose of holding the AGM and for determining the names of Members eligible for final dividend on equity shares for the Financial Year ended March 31, 2021, if declared at the AGM. The dividend will be payable to those Members whose names will appear in the Register of Members as on September 17, 2021 ("Record Date"). In respect of the shares held in electronic form, the dividend will be paid to those persons whose names shall appear as beneficial owners as

Dividend Related Information: Members may note that pursuant to the changes in the Income Tax

on September 17, 2021, in the records of Depositories;

Place: New Delhi

Date: September 6, 2021

Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020 (effective from April 1, 2020) and Finance Act, 2021 (effective required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to shareholders at the prescribed rates. A detailed email communication in this regard will be sent separately to all the Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories, intimating the applicability process for TDS deduction and claiming exemption, if any on dividends proposed to be paid by the Company Speaker Registration: The Members who wish to speak during the meeting may register themselves as speakers for the AGM to express their views. They can visit https://emeetings.kfintech.com and login through the user id and password provided in the mail received from KFintech, The 'Speaker Registration' will open from September 23, 2021 at 9:00 A.M. and close on September 24, 2021 at 5:00 P.M. Post registration and before AGM members shall be provided a 'queue number'. The Company reserves the right to restrict the

speakers at the AGM to only those Members who have registered themselves, depending on the availability Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address with the Company are requested to update their email address by writing to the RTA at einward.ris@kfintech.com or to the Company at secretarial@capitalindia.com along with the copy of signed request letter mentioning inter alia the folio no, name and address of the Member, scanned copy of the share certificate (front & back), self-attested copy of PAN Card, self-attested copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card, Passport, Aadhaar Card, etc.) in support of the address. Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants;

appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process (including the votes cast during the AGM) in a The results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.capitalindia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be submitted to BSE Limited, the stock exchange where the shares of the

Mr. Arun Kumar Gupta (COP: 8003) of M/s Arun Gupta & Associates, Company Secretaries, has been

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact Mr. Naveen Muthelya, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

Company Secretary & Compliance Officer

For Capital India Finance Limited

Rachit Malhotra

Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM using electronic voting system ("Remote e-voting") provided by KFintech. Member's holdings share either in physical form or dematerialized form, as on Wednesday, September 22, 2021 ("Cut-off date") can cast their vote via remote e-voting facility of KFintech through https://evoting.kfintech.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Friday, September 24, 2021 (1.00 P.M. IST) and ends on Tuesday, September 28, 2021 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Information and instructions comprising manner of voting, including remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM as well as in the email sent to the members by KFintech. Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronics

Company at investorservices@religare.com or to KFintech at einward.ris@kfintech.com. Members attending the AGM through VC / OAVM but who have not casted their vote by remote evoting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC / OAVM, however they shall not be eligible for e-voting at the AGM. The Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.religare.com . Please refer

means and before the Cut-off date may obtain the User ID and password by sending a request to the

the 'e-voting user manual' for members available in the downloads section of the website of KFintech i.e. https://evoting.kfintech.com. Any member who have any query/grievances connected with the evoting can contact Mr. S V Raju, Corporate Registry, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad 500032 at 1800 309 4001 (Toll Free) or email at einward ris@kfintech.com. The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the total voting capital of the Company as on the Cut-off date. Due to non-payment of dividend by the

Company for last two years on 0.01% 2,50,00,000 Non-cumulative Non-convertible Redeemab

Preference Shares ("Preference Shares") of face value of Rs. 10/-(Rupees Ten) each, the shareholders

holding aforesaid Preference Shares of the Company as on Cut-off date will also be entitled to vote on the resolution mentioned in the AGM Notice in proportion to the Preference Shares held by them. Members holding the shares in physical and demat form who have not registered their e-mail addresses with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent or with the respective Depository Participants can temporarily get their email IDs registered with RTA by using link: https://ris.kfintech.com/clientservices/ mobilereg/mobileemailreg.aspx and follow the registration process as guided thereafter or alternatively member may send an e-mail request at the email id einward ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of Share Certificate in case of physical folio to receive the Notice of the AGM and Annual Report for the year 2020-21 through email and/ or for remote e-voting,

attending the AGM through VC/ OAVM and e-voting thereat. For permanent registration/updation of the email addresses, members may send the request with the relevant Depository Participant in case of shares held in electronic form and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. KFin Technologies Private Limited, in case the shares held in physical form. NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with the Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of the Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both

days inclusive) for the purpose of the AGM. Further, the Shareholders are also requested to carefully read the Notes set out in the AGM Notice for more details on process to be followed for joining the AGM and manner of casting vote etc.

> By Order of the Board of Directors For Religare Enterprises Limited

Date: September 07, 2021 Place: New Delhi

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

New Delhi